

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 अप्रैल, 2021) – लगातार 19^{वें} वर्ष के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, अमेरिका (United States) और कॅनेडा (Canada) की गवर्नमेंट फाइनेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (जी.एफ.ओ.ए.) (Government Finance Officers Association) (GFOA) से कॅनेडियन अवॉर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग (Canadian Award for Financial Reporting) (CAnFR) जीता है।

सिटी की 2019 [एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट \(Annual Financial Report\)](#) के लिए पेश किया गया CAnFR अवॉर्ड, सरकारी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है और लोकल सरकार तथा इसके प्रबंधन के द्वारा शानदार उपलब्धि का वर्णन करता है।

ब्रैम्पटन ने कॅनेडा के चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स (सी.पी.ए.) (Chartered Professional Accountants) (CPA) के पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग बोर्ड (पी.एस.ए.बी.) (Public Sector Accounting Board) (PSAB) के द्वारा तय किए गए जनली असेप्टिड अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स (जी.ए.ए.पी.) (Generally Accepted Accounting Principles) (GAAP) की न्यूनतम से अधिक शर्तों को पूरा करके और पारदर्शिता और पूरे प्रकटीकरण की मूल भावना के साथ, एक व्यापक और उच्च-गुणवत्ता की सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके CAnFR अवॉर्ड जीता है।

CAnFR अवॉर्ड प्रोग्राम, कॅनेडा में म्युनिसिपल सरकारों को, उच्च-गुणवत्ता की रिपोर्टें प्रकाशित करने और इन रिपोर्टों को तैयार करने वाले अफसरों को सहयोगियों का सम्मान करने और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट की जांच निष्पक्ष कॅनेडेयिन रिव्यू कमेटी (Canadian Review Committee) के सदस्यों के द्वारा की गई थी कि यह प्रोग्राम के उच्च स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं या नहीं, इसमें ब्रैम्पटन की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट तौर पर वर्णन करने और रिपोर्ट को पढ़ने के लिए संभावी उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ता समूहों को प्रेरित करने के लिए रचनात्मक तौर पर “पूरे प्रकटीकरण की भावना” दर्शाना भी शामिल है।

हवाले

“हमारे टैक्स देने वाले निवासी, हमसे पूरी पारदर्शिता और ठोस वित्तीय प्रक्रियाओं की उम्मीद करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित GFOA अवॉर्ड जीतना, हमारे नागरिकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है और हमारी प्रतिष्ठा को मज़बूत बनाता है, जब हम लगातार ब्रैम्पटन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ब्रैम्पटन ने लगातार 19 वर्षों के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित GFOA अवॉर्ड जीता है। अवॉर्ड प्रोग्राम की कड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए, स्टाफ के सदस्यों के द्वारा खास प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो सालाना रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग करते हैं।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“CAnFR अवॉर्ड, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इसके प्रबंधन के द्वारा खास उपलब्धि को दर्शाता है। यह अवॉर्ड जीतकर, हमारे स्टाफ, सिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उच्च-गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स और पारदर्शिता तथा पूरे प्रकटीकरण के सिद्धांतों की मिसाल कायम होती है, जो काउंसिल की अच्छी-तरह संचालित शहर बनने की प्रायरिटी के मुताबिक है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca